



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17—सितम्बर 23, 2005 (भाद्रपद 26, 1927)  
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17—SEPTEMBER 23, 2005 (BHADRAPAD 26, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

[भाग I—खण्ड 4]  
[PART I — SECTION 4]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सेना शाखा

सेना चित्र प्रभाग

सं० 444, दिनांक 22 अगस्त, 2005— राष्ट्रपति महोदय श्री पी० एस्० हुड्ड, उप निदेशक को दिनांक 27 जुलाई, 2005 से निदेशक, सेना चित्र प्रभाग के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश ओ०ए०सं० 892/2005— श्री टी०एल० वर्मा विरुद्ध भारत संघ तथा अन्य एवं अन्य किसी अदालती मामले जो कि इस संबंध में लंबित हैं के निर्णयों के विषयाधीन होगी।

रक्षा संपदा महानिदेशालय

राष्ट्रपति महोदय सशस्त्र सेना मुख्यालय राजभाषा सेवा के श्री शत्रुघ्न तिवारी, वरिष्ठ अनुवादक को दिनांक 01 जुलाई, 2005 (अपराह्न) से सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सन्तोष दासगुप्ता,  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 445, दिनांक 25 अगस्त, 2005—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:

डॉ० एन० गोपालन को डी आर डी ई, ग्वालियर में 20 मई, 2004 से वैज्ञानिक 'डी' (अस्थायी) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर वेतनमान 12000-375-16500 पर।

श्री एम्० सूर्य प्रकाश राजू को एन एस टी एल, विशाखापटनम में 31 मई, 2004 से वैज्ञानिक 'डी' (अस्थायी) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर वेतनमान 12000-375-16500 पर।

श्री ए० वी० जोशी को अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 'ई' में एक साल की परखावधि पर सेमीलाक बैंगलोर में 01 सितम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से रु० 14300-400-18300 के वेतनमान पर।

जे० के० खडवाल,  
संयुक्त निदेशक, (कार्मिक)

वित्त प्रभाग

सं० 446, दिनांक 22 अगस्त, 2005 — राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित श्री-ग आशुलिपिकों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों तक अथवा अगले

आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस प्रभाग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव की नियुक्ति को जारी रखते हैं:—

क्र०सं०	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	से	तक
1.	राजबीर सिंह	01-07-2005	30-09-2005
2.	एस् पी० कपूर	01-07-2005	30-09-2005
3.	श्रीमती सुखपाल वालिया	01-07-2005	30-09-2005

एम० सी० लूथर,  
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

वायु सेना मुख्यालय

सं० 447, दिनांक 22 अगस्त, 2005—राष्ट्रपति सहर्ष, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली, 2001 के नियम 7(8) के अधीन नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों की उप-निदेशक (ग्रुप-ए राजपत्रित), वेतनमान, 10000-15200, के पद पर नियुक्ति को दिनांक 09 फरवरी, 2005 से 08 अगस्त, 2005 तक के समय के लिए बढ़ाते हैं:—

क्रम	नाम सर्व श्री/श्रीमती
क.	अभिनवजीत ओझा
ख.	देवेन्द्र कुमार
ग.	श्रीमती प्रज्ञा शान्तनु
घ.	अनुपम मिश्रा
च.	श्रीमती श्वेता अशोक
छ.	एस् के० शुक्ला
ज.	अमर नाथ सिन्हा
झ.	बी० सी० दास
ट.	एच् पी० मलिक
ठ.	जी० डी० गुप्ता
ड.	ए० ए० शुक्ला
ढ.	पी० के० गर्ग
त.	डी० के० चतुर्वेदी

2. संसे० मु० सिविल सेवा नियमावली, 2001 के नियम 7 (8) में उल्लिखित अधिकारियों की उप-निदेशक के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है:—

क. यह नियुक्ति पूर्णतः काम चलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

ख. उप-निदेशक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन उप-निदेशक के रूप में की गई उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

ग. ये नियुक्तियाँ न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय जो फोर्ड ग्रेड में वरिष्ठता को प्रभावित कर सकते हैं, के लागू करने के क्रम में संभाव्य आवश्यक संशोधनों के अधीन होगी।

राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों की सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव, (ग्रुप-ख राजपत्रित), वेतनमान, 6500-200-10500 के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्ति की दिनांक 01 जनवरी, 2005 से 30 जून, 2005 तक अथवा चयन सूची से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:—

क्रम	नाम सर्वश्री/श्रीमती
क.	एल् ए० गुप्ता
ख.	श्रीमती गीता जयकुमार
ग.	श्रीमती सिन्धिया कपूर
घ.	टी० सी० अरोड़ा
च.	कुमारी राधा राजत्र
छ.	वी० के० सरपाल
ज.	बाल कृष्ण
झ.	श्रीमती सन्तोष दीवान
ट.	रमेश असवानी
ठ.	एस् के० सचदेवा
ड.	ए० के० छिबर
ढ.	डी० एल् भाटिया
त.	ए० के० शर्मा
थ.	रविन्दर कुमार

2. उपरलिखित अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है:—

क. यह पदोन्नतियाँ पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई हैं तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती हैं।

ख. उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थाई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

सन्तोष दासगुप्ता,  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय वायु सेना

वायु शाखा

वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल शाखा)

संख्या 448, दिनांक 26 अगस्त, 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

फ्लाईंग अफसर जाफ्फर अली अनवर अली (27417) ए ई (एल) ललिथा के सी (27171) ए ई (एल) संदीप कुमार सिथोरन (27426) ए ई (एल) योगिता चाव्हान (27177) ए ई (एल) प्रथाबन सुब्बाराज (27421) ए ई (एल) दिनेश बी नायर (27422) ए ई (एल) रमाना

सुन्दशाम आर (27433) ए ई (एल) प्रशांत अधिदारी (27420) ए ई (एल) कुणाल सिंगल (27418) ए ई (एल) सुभाष के (27423) ए ई (एल) आर सुबाथरा (27176) ए ई (एल) गुरुप्रीत सिंह (27427) ए ई (एल) एन्ड्रेयू जे अरुल (27161) ए ई (एम)- दिनांक 05 जनवरी, 04 से फलाईंग अफसर पल्लवी पाण्डेय (27623) ए ई (एम) पूनम (27626) ए ई (एल) अलका पाण्डेय (27628) ए ई (एल) तेजशबिनी जी (27624) ए ई (एम) सीमा बिस्तु (27627) ए ई (एल) मोबेल बेन्डिवट कास्टेलिनो (27625) ए ई (एल) दिनांक 05 जुलाई, 04 से ।

संजीव श्रीवास्तव,  
विंग कमांडर जे डी पी ओ-3(डी)

### सेना शाखा

#### नियमित सेना

#### अल्पकालीन सेवा आयोग

#### लफ्टिनेंट से कप्तान के रैंक में

सं० 449, दिनांक 23 अगस्त, 2005—राष्ट्रपति सहर्ष अनुदेश 2एस 66 के परिशिष्ट संख्या 4 के अधीन निम्नलिखित पदोन्नति लफ्टिनेंट से कप्तान के रैंक में उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं जिन्हें सेना में भर्ती होने से पूर्व पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातकोक्त की उपाधि प्राप्त करने हेतु 12 माह की पूर्व वरिष्ठता प्रदान की जाती है:—

सं. नं., रैंक और नाम	कोर	भर्ती की तिथि	पूर्व वरिष्ठता की तिथि	कप्तान के रैंक में पदोन्नति की तिथि
(क) बी एस-1003 ए आर बी सी	02.09.1996	02.09.1995	02.09.1997	
लेफ्टि एस एस भारतद्वज				

2. दिनांक 17 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कप्तान के रैंक पर पदोन्नति से लफ्टिनेंट एस एस भारतद्वज का नाम हटाया जाता है ।

#### नियमित सेना

#### तोपखाना रेजिमेंट

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (ए आय जी) के पद में

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

सूबेदार जोसिफ ए टी (जेसी-215685 जोएल), 20 अप्रैल 2004  
\*01 अप्रैल, 2004

सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-226971 एम), 01 मई 2004

सूबेदार संभू दयाल यादव (जेसी-255559 एफ), 09 अगस्त 2004  
\*01 जुलाई 2004

सूबेदार लाडू सिंह शेखावत (जेसी-255273 एम), 01 अगस्त 2004

सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-225274 पी), 02 फरवरी 2005  
\*01 फरवरी 2005

सूबेदार लेख राम (जेसी-225374 एल), 06 अप्रैल 2005  
\*01 मार्च 2005

सूबेदार जगदेव सिंह यादव (जेसी-225410 एल), 04 अप्रैल 2005,  
\*01 मार्च 2005

सूबेदार कैलास नाथ यादव (जेसी-214927 डब्ल्यू), 01 मई 2005

सूबेदार अवतार सिंह चौहान (जेसी-214907 एच), 02 मई 2005,  
\*01 मई 2005

सूबेदार निरंजन लाल (जेसी-225682 एल), 01 मई 2005

नायब सूबेदार पाटील धोडी राम शंकर (जेसी-260535 एफ),  
09 अगस्त 2003,

\*01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-214905एक्स), 05 फरवरी 2004,  
\*01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार एस प्रिमा नयागम (जेसी-261247एफ), 08 अप्रैल 2004, \*01 मार्च 2004

नायब सूबेदार शार्दुल सिंह (जेसी-261249एम), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार बिशन दास (जेसी-261244एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार गुरचरन सिंह (जेसी-261246वाई), 08 अप्रैल 2004,  
\*01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार सत्यदेव सिंह यादव (जेसी-261440एच), 15 मई 2004,  
\*01 मई 2004

नायब सूबेदार बलराम सिंह (जेसी-261256एच), 01 जून 2004

नायब सूबेदार शेख राम यादव (जेसी-261829एफ), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-261455डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार राम चन्द्रन पी (जेसी-261834एम), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-261459एम), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार पी देव सगयम (जेसी-261831वाई), 18 अक्टूबर 2004,  
\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-261832वाई), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ओमकार नाथ सिंह (जेसी-261835पी),  
05 अक्टूबर 2004, \*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार मासल आनंद अन्नू (जेसी-261836एक्स),  
11 अक्टूबर 2004

\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार रत्ती राम (जेसी-261838एच), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-261841एच), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-261839 एल), 09 अक्टूबर 2004,  
\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार दिप नारायण राय (जेसी-261840ए), 07 अक्टूबर 2004,  
\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार बलजीत सिंह चौहान (जेसी-261842एल),  
11 अक्टूबर 2004,  
\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह गुलेरिया (जेसी-261950पी), 04 अक्टूबर  
2004, \*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-261949ए), 05 अक्टूबर 2004,  
\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह जोधा (जेसी-261951एक्स),  
07 अक्टूबर 2004,  
\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-261953एच), 04 अक्टूबर 2004,  
\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार वेद सिंह (जेसी-2621135एन), 09 अक्टूबर 2004,  
\*01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार के पद में (जी डी)

बीएचएम राम खिलावन साहू (14478 142एन अब जेसी-267446एल),  
01 अक्टूबर 2004, \*01 फरवरी 2004

हवलदार जगपाल सिंह (14487818एम अब जेसी-267447एन),  
02 नवम्बर 2004, \*01 अप्रैल 2004

हवलदार गौरा किशोर सिन्हा (14357661एनअब जेसी-267448डब्ल्यू),  
10 सितम्बर 2004, \*29 अप्रैल 2004

हवलदार जागीर सिंह (14478528एन अब जेसी-267449वाई),  
01 अक्टूबर 2004, \*01 मई 2004

आरएचएम संजय डे (14488172वाई अब जेसी-267450एन),  
02 नवम्बर 2004, \*14 मई 2004

आरएचएम सुरेश कुमार (14375032वाई अब जेसी-267451डब्ल्यू),  
27 अगस्त 2004, \*01 जुलाई 2004

हवलदार परशोत्तम सिंह (14361291डब्ल्यू अब जेसी-267452वाई),  
19 अक्टूबर 2004, \*04 जुलाई 2004

हवलदार सुशील कुमार सिंह (14479989के अब जेसी-267453एफ),  
01 नवम्बर 2004, \*10 जुलाई 2004

बीएचएम मधो राम (14463087एल अब जेसी-267454के),  
15 सितम्बर 2004, \*28 जुलाई 2004

आरएचएम राम प्रसाद (14461713एल अब जेसी-267455एम),  
14 अगस्त 2004, \*01 अगस्त 2004

आरएचएम प्रेम चन्द (14484249वाई अब जेसी-267456पी),  
22 अक्टूबर 2004, \* 31 अगस्त 2004

हवलदार गुरुदयाल सिंह (14398140पी अब जेसी-267457एक्स),  
25 अक्टूबर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार जोर राम (14470203एल अब जेसी-267458ए), 28 अक्टूबर  
2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार प्रकाश भूमबर (14474754एन अब जेसी-267459एच),  
20 अक्टूबर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद नौटीयाल (14349703ए अब  
जेसी-267460एक्स), 01 नवम्बर 2004

हवलदार वाघ संजय कुमार गंगाधर (14397632एफ अब जेसी-267461ए),  
01 नवम्बर 2004

हवलदार अखिलेश्वर सिंह (14379068पी अब जेसी-267462एच),  
25 नवम्बर 2004, \* 06 मार्च 2004

आर एचएम कश्मीर लाल (14469900वाई अब जेसी-267463एल),  
14 अगस्त 2004, \* 29 जून 2004

हवलदार डेगला विजय कुमार (14378664पी अब जेसी-267464एन),  
25 नवम्बर 2004, \* 30 जून 2004

हवलदार रघुवीर सिंह (14498092पी अब जेसी-267465डब्ल्यू),  
20 अक्टूबर 2004, \* 01 जुलाई 2004

बीएचएम बहादूर सिंह (14348926 एल अब जेसी-267466वाई),  
01 नवम्बर 2004, \* 01 अगस्त 2004

बीएचएम वी डेनाराड (14360808के अब जेसी-267467एफ),  
03 दिसम्बर 2004, \* 27 अगस्त 2004

हवलदार सतनाम सिंह (14354153एम अब जेसी-267468के),  
08 अक्टूबर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार श्री कुमार पी (143785 18पी अब जेसी-267469एम),  
30 सितम्बर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार राम चन्द (14497129वाई अब जेसी-267470एफ),  
15 अक्टूबर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

बीएचएम बुटे विजय कुमार वामन राव (14482506एम अब  
जेसी-267471के), 16 अक्टूबर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार उमा शंकर प्रसाद (14349261एम अब जेसी-267472एम),  
29 नवम्बर 2004 \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार उदय प्रताप सिंह गौतम (14366553एल अब  
जेसी-267473पी), 26 अक्टूबर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार धरगे सुर्याजी आनंदराव (14475882एक्स अब  
जेसी-267474एक्स), 16 अक्टूबर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार मुन्शी लाल (14473794एच अब जेसी-267475ए),  
26 अक्टूबर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम किशोरी लाल (14461506वाई अब जेसी-267476एच),  
12 नवम्बर 2004, \* 01 नवम्बर 2004

हवलदार कोलसे गुन्डीराम लक्ष्मन (14373759एल अब जेसी-267477एल), 29 नवम्बर 2004, \* 01 नवम्बर 2004

हवलदार बोध राज (14362799एम अब जेसी-267515डब्ल्यू), 25 नवम्बर 2004, \* 01 मई 2004

हवलदार दिलबाग सिंह (14381222एफ अब जेसी-267516वाई), 24 नवम्बर 2004, \* 08 जून 2004

हवलदार रघुवीर सिंह (14487398एक्स अब जेसी-267517एफ), 25 अक्टूबर 2004, \* 30 जून 2004

हवलदार हरवीर सिंह (14372655एक्स अब जेसी-267518के), 24 नवम्बर 2004, \* 30 जून 2004

बीएचएम मुन्ना लाल (14461035डब्ल्यू अब जेसी-267519एम), 05 नवम्बर 2004, \* 01 अगस्त 2004

हवलदार राज कुमार सिंह (14363494एक्स अब जेसी-267520एफ), 13 नवम्बर 2004, \* 01 अगस्त 2004

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (15109783एम अब जेसी-267521के), 05 नवम्बर 2004, \* 16 अगस्त 2004

हवलदार शिव राज सिंह (14345863एच अब जेसी-267522एम), 16 नवम्बर 2004, \* 30 अगस्त 2004

हवलदार दयानन्दन पी (14489340वाई अब जेसी-267523पी), 11 नवम्बर 2004, \* 31 अगस्त 2004

हवलदार योगेन्द्र सिंह (14372268एच अब जेसी-267524एक्स), 09 नवम्बर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार परमजीत सिंह (14370395वाई अब जेसी-267525ए), 24 नवम्बर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

बी एचएम विजय पाल सिंह (14474507पी अब जेसी-267526एच), 16 अक्टूबर 2004, \* 03 सितम्बर 2004

हवलदार विजय नारायण राम (14355380वाई अब जेसी-267527एल), 01 दिसम्बर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

आरएचएम हरचन्द सिंह (14345664पी अब जेसी-267528एन), 27 नवम्बर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम करनैल सिंह (14490026एक्स अब जेसी-267529डब्ल्यू), 25 नवम्बर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद (14469438एल अब जेसी-267530एल), 08 नवम्बर 2004, \* 07 अक्टूबर 2004

आरएचएम अशोकन नायर के (14352452एम अब जेसी-267531एन), 23 नवम्बर 2004, \* 01 अगस्त 2004

बीएचएम सोबरन सिंह (14470279एल अब जेसी-267532डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2004, \* 01 अगस्त 2004

हवलदार जसवन्त सिंह (14469526एफ अब जेसी-267533वाई), 07 दिसम्बर 2004, \* 01 अगस्त 2004

हवलदार कृष्णा कुमार (14367487ए अब जेसी-267534एफ), 06 नवम्बर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार नागाराजन बी (14485164पी अब जेसी-267535 के), 23 नवम्बर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार राम मेहर (14481601एम अब जेसी-267536एम), 26 अक्टूबर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार बलवन्त सिंह (14469975डब्ल्यू अब जेसी-267537पी), 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम मल्लिकार्जुनाय आर (14393809एम अब जेसी-267538एक्स), 30 दिसम्बर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार हरी गिरी (14401308के अब जेसी-267539ए), 31 दिसम्बर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम रेशम सिंह (144756 13एल अब जेसी-267540पी), 06 दिसम्बर 2004, \* 01 नवम्बर 2004

आरएचएम कासीना बोनीय्या चालामियां (14358681एन अब जेसी-267541एक्स), 07 दिसम्बर 2004, \* 01 नवम्बर 2004

हवलदार कमलेश चन्द्र (14367435के अब जेसी-267542ए), 10 दिसम्बर 2004, \* 01 नवम्बर 2004

हवलदार कृष्णन चन्द (14477470पी अब जेसी-267533एच), 16 दिसम्बर 2004, \* 23 नवम्बर 2004

हवलदार राम प्रकाश (14367279एल अब जेसी-267544एल), 29 नवम्बर 2004, \* 25 नवम्बर 2004

बीएचएम मदन लाल (14350008एक्स अब जेसी-267545एन), 15 दिसम्बर 2004, \* 08 दिसम्बर 2004

हवलदार रघुवर दयाल (14464965एच अब जेसी-267546डब्ल्यू), 06 जनवरी 2005, \* 01 जनवरी 2005

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद (14477501 के अब जेसी-267379एल), 12 अगस्त 2004, \* 01 अप्रैल 2004

हवलदार दलजीत सिंह (14381198डब्ल्यू अब जेसी-267380ए), 06 सितम्बर 2004, \* 01 जून 2004

हवलदार चन्द्रपाल सिंह (14498719एफ अब जेसी-267381एच), 22 अक्टूबर 2004, \* 01 जुलाई 2004

हवलदार देव कुमार सिंह (14473256पी अब जेसी-267382एल), 20 अक्टूबर 2004, \* 01 अगस्त 2004

बीक्यूएमएच विश्वराज (14378049एक्स अब जेसी-267383एन), 30 अक्टूबर 2004, \* 01 अगस्त 2004

हवलदार प्रेम सिंह रामा (14465085वाई अब जेसी-267384डब्ल्यू), 16 अगस्त 2004, \* 01 अगस्त 2004

हवलदार तारा चन्द (14375800पी अब जेसी-267385वाई),  
20 सितम्बर 2004, \*01 अगस्त 2004

हवलदार रमेश कुमार (14359847डब्ल्यू अब जेसी-267386एफ),  
10 नवम्बर 2004, \*01 अगस्त 2004

हवलदार नस्तर किन्डो (14366462एफ अब जेसी-267387के),  
02 अगस्त 2004

हवलदार मनोज कुमार (14385841एम अब जेसी-267388 एम),  
20 अक्टूबर 2004, \*12 अगस्त 2004

बीएच एम बोबडे संजयअमृत अमृतराव (14368439एम अब  
जेसी-267389 पी), 01 नवम्बर 2004, \*19 अगस्त 2004

हवलदार मानकर वासुदेव रामजी (14479356 डब्ल्यू अब  
जेसी-267390 के ), 01 नवम्बर 2004, \*19 अगस्त 2004

बीक्यूएम एच कृष्णन कुमार शर्मा (14347123एम अब  
जेसी-267391एम), 01 सितम्बर 2004

आरएचएम धरम सिंह (14366377 वाई अब जेसी-267392 पी),  
13 नवम्बर 2004, \* 16 अक्टूबर 2004

हवलदार जय प्रकाश चौबे (14474996 डब्ल्यू अब जेसी-267393  
एक्स), 20 अक्टूबर 2004, \* 10 अक्टूबर 2004

हवलदार जगन राम (14336496ए अब जेसी-267398 डब्ल्यू),  
08 नवम्बर 2004, \* 06 नवम्बर 2003

आरएचएम काटे यशवन्त पांडुरंग (14494855एच अब जेसी-267399  
वाई), 17 सितम्बर 2004, \* 30 नवम्बर 2003

हवलदार सेल्चाराज आर (14494803 एम अब जेसी-267400 एच),  
01 अक्टूबर 2004, \* 14 फरवरी 2004

हवलदार भुरवे बाजीराव विठोबा (14361144एन अब जेसी-267401  
एल ), 30 अक्टूबर 2004, \* 24 जुलाई 2004

बीएचएम रामचन्द्र (14906114 एन अब जेसी-267402एन),  
11 अक्टूबर 2004, \* 06 अगस्त 2004

हवलदार धरम वीर (14472634डब्ल्यू अब जेसी-267403 डब्ल्यू),  
28 अक्टूबर 2004, \* 08 अगस्त 2004

हवलदार महावीर सिंह (14472325एन अब जेसी-267404 वाई),  
06 सितम्बर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार रामवृक्ष प्रसाद (14495391 एच अब जेसी-267405 एफ),  
29 अक्टूबर 2004, \* 01 सितम्बर 2004

हवलदार संभू नाथ ठाकुर (14471100 वाई अब जेसी-267406के),  
11 अक्टूबर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम मदन लाल (14473335 के अब जेसी-267407 एम),  
24 अक्टूबर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार सतया नाथ भूमिल (14468196एफ अब जेसी-267408पी),  
28 अक्टूबर 2004 \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार बिरम सिंह चन्दावत (14470112एफ अब  
जेसी-267409एक्स), 24 अक्टूबर 2004 \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार लखविन्दर सिंह (14362916एम अब जेसी-267410एम),  
06 नवम्बर 2004 \* 01 अक्टूबर 2004

हवलदार विजय सिंह (14343837एच अब जेसी-267411पी),  
\*01 अक्टूबर 2004

हवलदार रमेश कुमार (14361279पी अब जेसी-267412एक्स),  
17 नवम्बर 2004, \* 01 अक्टूबर 2004

आर एच एम दावेकर भाऊसाहेब रामचन्द्र (14360127 एफ अब  
जेसी-267413ए), 14 नवम्बर 2004, \*01 नवम्बर 2004

( \*ज्येष्ठता प्राप्त )

कोर ऑफ सिगनल्स

स्थाई सूबेदार मेजर (वाई ऑफ एस), के रैंक में

सूबेदार मणि सी (जेसी-223404 वाई), 06 फरवरी 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार के सी मिश्रा (जेसी-223405 एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार प्रेम कुमार सिंह (सं 223407 एम), 01 अप्रैल 2005

स्थाई सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस), के रैंक में

सूबेदार श्री कुमारन कक्कोनिकारा (जेसी-215160 एफ),  
27 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-214031 पी), 01 मार्च 2005

सूबेदार बैज नाथ (जेसी-215167 एल), 8 मई 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार नारायण सतपथी (जेसी-215172 डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार भंवर सिंह राठौर (जेसी-215176 एम), 01 मई 2005

स्थाई सूबेदार मेजर (ओ पी साईफर), के रैंक में

सूबेदार के बी भोजन (जेसी-367997 एल), 01 मार्च 2005

सूबेदार अजीत कुमार घोष (जेसी-368121 वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार गुरदियाल सिंह (जेसी-368124 एम), 01 मार्च 2005

सूबेदार रूपलाल ठाकुर (जेसी-368126 एक्स), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार अरविन्दा बोरा (जेसी-368128 एच), 01 मई 2005

स्थायी सूबेदार मेजर (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

सूबेदार व्ही एस एस यादव (जेसी-367372 डब्ल्यू), 02 फरवरी 2005  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार शीष राम (जेसी-367730 डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार रमेश चन्द राना (जेसी-367738 एच), 01 मई 2005

सूबेदार मांगी लाल मीणा (जेसी-367352 एच), 01 मई 2005

स्थायी सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार विश्वनाथ प्रमाणिक (जेसी-368204 के), 01 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार शंभू नाथ चौबे (जेसी-368461 एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार चन्दर भान (जेसी-368462 के), 02 अप्रैल 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार देवेन्दर पाल सिंह (जेसी-369933 वाई), 17 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह दलाल (जेसी-369940 पी), 16 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार किरपाल सिंह (जेसी-370073एच) 21 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार शशी कान्त सिंह (जेसी-370128 एफ), 12 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार पूरन चन्द्र (जेसी-370143 डब्ल्यू), 06 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार मल्हाराजू के आर (जेसी-370145 एफ), 10 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार विनोद कुमार सिंह (जेसी-370148 पी), 15 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार सतेन्दर सिंह बिष्ट (जेसी-370149 एक्स), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार भीम राव महादेव कथाने (जेसी-370150 एम), 01 अप्रैल  
2005

सूबेदार नानक चन्द वर्मा (जेसी-370320 एल), 06 अप्रैल 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-370323 वाई), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-370325 के), 04 अप्रैल 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी)

हवलदार गरीश चन्द्रा त्रिपाठी 6385961ए अब जेसी-663136-डब्ल्यू  
11मार्च 2005 \*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी।

हवलदार सतपाल शर्मा 6386090एक्स अब जेसी-663137-वाई  
01अप्रैल 2005

हवलदार दिनेश कुमार कण्ठप 6386169ए अब जेसी-663138-एफ  
01 अप्रैल 2005

हवलदार कैलाश चन्द्रा खतई 6386170पी अब जेसी-663139-के  
01 अप्रैल 2005

हवलदार राधे शायम 6386175एन अब जेसी-663140-वाई  
01अप्रैल 2005

हवलदार सत्यन सी एस 6386489पी अब जेसी-663141-एफ  
01 अप्रैल 2005

हवलदार मदन मोहन खोलिया 6386505एफ अब जेसी-663142-के  
01 अप्रैल 2005

हवलदार जेम्स जोसफ 6378564 वाई अब जेसी-663215-एल  
07 अप्रैल 2005 \*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।

हवलदार बर्मनन्द शर्मा 6386251 पी अब जेसी-663216-एन  
08 अप्रैल 2005 \*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।

हवलदार अरविन्द नाथ तिवारी 6386323 एन अब जेसी-663217-डब्ल्यू  
01 अप्रैल 2005

हवलदार राकेश कुमार बक्शी 6386518वाई अब जेसी-663218-वाई  
02 मई 2005 \*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01मई 2005 से दी जायेगी।

हवलदार उन्नीकृष्ण नायर बी 6386515 एल अब जेसी-663219-एफ  
02 मई 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी।

हवलदार विजय कुमार बी 6386537 के अब जेसी-663220 डब्ल्यू  
01 मई 2005

हवलदार दलीप कुमार बिसवाल 6386172 ए अब जेसी-663273-पी  
01 अप्रैल 2005

हवलदार अशोक कुमार 6386510 एम अब जेसी-663274-एक्स  
01 मई 2005

हवलदार गेदला वैनन्टा महेन्द्रा राजू 6386570 एफ अब  
जेसी-663275-ए02 मई 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी।

हवलदार सुखविन्द सिंह काकनिया 6386741 एच अब जेसी-663276  
एच 01 मई 2005

हवलदार मनपाल सिंह 6378157 डब्ल्यू अब जेसी-663277 एल  
01 मई 2005

हवलदार शिन्दे अनिल कुमार 6378672 एच अब जेसी-663316 वाई  
01 जून 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 24 मार्च 2005 से दी जायेगी।

हवलदार माम चन्द 6376922ए अब जेसी-663317-एफ 01 जून 2005

हवलदार रामबीर 6377164ए अब जेसी-663318-के 01 जून 2005

हवलदार जगदीश चन्द्र 6377383 एफ अब जेसी-663319-एम  
01 जून 2005

हवलदार दलीप सिंह 6377557 डब्ल्यू अब जेसी-663320-एफ  
01 जून 2005

हवलदार शरता चन्द्रा पान्डा 6377685 एन अब जेसी-663321-के  
01 जून 2005

हवलदार रूप लाल 6377953 एम अब जेसी-663322-एम  
01 जून 2005

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी०डी०) के पद में

सूबेदार सिवन कुट्टी एन (जेसी-256148 पी), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार मुंडे शेशराव सदाशिव (जेसी-296596 के), 03 जून 2005,  
\*01 जून 2005

सूबेदार एस राज (जेसी-296518 एम), 01 जुलाई 2005

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (टी०आई०एफ०सी०) के पद में

सूबेदार शिम्भू सिंह (जेसी-205841 डब्ल्यू), 03 मई 2005,  
\*01 मई 2005

सूबेदार एस पीथु (जेसी-225395 एफ) 01 जून 2005

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी०डी०) के पद में

नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार (जेसी-298276 एन), 08 जनवरी 2005,  
\*01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार पंडुरू कौंडाला राव (जेसी-298157 एक्स), 27 जनवरी  
2005, \*03 जनवरी 2005

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-298399ए), 18 फरवरी 2005,  
\*01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार अशोक कुमार रॉय (जेसी-298668 एफ), 27 अप्रैल,  
2005, \*20 फरवरी 2005

नायब सूबेदार रत्न लाल (जेसी-298042 के), 07 मार्च 2005,  
\*01 मार्च 2005

नायब सूबेदार अशोक कुमार नैन (जेसी-298028 एक्स), 18 मई,  
2005, \*06 मार्च 2005

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी०डी०) के पद में निरंतर

नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-297914 पी), 13 जून 2005,  
\*01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार दलवीर सिंह (जेसी-297957 के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार नारायण दत्त (जेसी-298548 एच), 19 अप्रैल 2005,  
\*01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार शेख दस्तगीरी साहेब (जेसी-298439 डब्ल्यू), 26 अप्रैल  
2005, \*01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार सुकुमारन टी पी (जेसी-298554 डब्ल्यू), 26 अप्रैल  
2005, \*01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार के महेन्द्रन (जेसी-298642 एम), 21 मई 2005,  
\*01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार धरमवीर (जेसी-297676 एन), 01 जून 2005

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए०आई०जी०) के पद में

नायब सूबेदार मनीराज प्रसाद द्विवेदी (जेसी-297808 डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

सब्सटेंटिव सूबेदार (टी०आई०एफ०सी०) के पद में

नायब सूबेदार राम करन (जेसी-298535 एल), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार सुबे सिंह (जेसी-298533 ए), 10 मार्च 2005,  
\*01 मार्च 2005

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-298536 एन), 01 जून 2005

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-298574 के), 01 जून 2005



## सब्सटेंटिव सुबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सुबेदार अजया कुमार सी पी (जेसी-297527 ए), 22 मई 2005,  
\*01 अप्रैल 2005

नायब सुबेदार देवा राम लखारा (जेसी-297528 एच), 04 जुलाई 2005,  
\*01 जुलाई 2005

नायब सुबेदार इंदर सैन (जेसी-297529 एल), 01 जुलाई 2005

## सब्सटेंटिव सुबेदार (धर्मशिक्षक) के पद में

नायब सुबेदार राजेश कुमार पांडे (जेसी-256691 एन), 04 दिसम्बर 2004,  
\*01 दिसम्बर 2004

नायब सुबेदार सुधीर कुमार मिश्रा (जेसी-296438 पी), 01 दिसम्बर 2004

## सब्सटेंटिव सुबेदार (धर्म शिक्षक) के पद में निरंतर

नायब सुबेदार दिनेश कुमार तिवारी (जेसी-623072 एन), 01 दिसम्बर 2004

नायब सुबेदार धनेश कुमार मिश्रा (जेसी-256695 के), 09 दिसम्बर 2004,  
\*01 दिसम्बर 2004

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

## नायब सुबेदार के पद में

बीएचएम चंद्रसेखरन नायर टी पी (14377437एच अब जेसी-299221 डब्ल्यू), 12 अप्रैल 2005, \*01 अप्रैल 2005

बीएचएम गोबर्धन प्रसाद शुक्ला (14367556 एल अब जेसी-299222वाई), 23 अप्रैल 2005, \*01 अप्रैल 2005

आरएचएम साही राम (14356598 एक्स अब जेसी-299223एफ), 27 अप्रैल 2005, \*05 अप्रैल 2005

बीएचएम यरूवा रामा सुब्बा रेड्डी (14358706 पी अब जेसी-299224 के), 27 अप्रैल 2005, \*16 अप्रैल 2005

बीएचएम राम किशोर (14363038 एन अब जेसी-299225 एम), 01 मई 2005

बीएचएम सुखदेव सिंह (3381281ए अब जेसी-299226पी), 03 मई 2005, \*01 मई 2005

बीएचएम राम प्रमोद सिंह (14369078एल अब जेसी-299227एक्स), 01 जून 2005, \*01 मई 2005

बीएचएम प्रमोद कुमार पांडे (14347305ए अब जेसी-299228ए), 24 मई 2005, \*08 मई 2005

आरएचएम मरीचामी के (14376782के अब जेसी-299229एच), 28 मई 2005, \*20 मई 2005

बीएचएम बृजेश कुमार (14366301 वाई अब जेसी-299230एक्स), 01 जून 2005

बीएचएम राजदेव सिंह (14368193 वाई अब जेसी-299231ए), 01 जून 2005

बीएचएम सुभाष (14359479 एम अब जेसी-299232एच), 01 जून 2005

हवलदार अनिल कुमार (14388909 एन अब जेसी-299233 एल), 01 जून 2005

आरएचएम जतींदर सिंह (14378849 डब्ल्यू अब जेसी-299234 एन), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम गिरबर सिंह (15101846पी अब जेसी-299235डब्ल्यू), 09 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम मनोहर सिंह (14370643के अब जेसी-299236वाई), 10 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम बिनोद सिंह राठौर (14387728 डब्ल्यू अब जेसी-299237एफ), 05 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम शंकर लाल (14385192एम अब जेसी-299238के), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम प्रेम सिंह (14392931डब्ल्यू अब जेसी-299239 एम), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम ब्रिशन चंद (14367838के अब जेसी-299240एफ), 16 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम संभु पाडा बर्मन (14393937के अब जेसी-299241के), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम मुरली मोहन एस पी (14408232एक्स अब जेसी-299242एम), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम अंजन कुमार राँय (14404805 एक्स अब जेसी-299243पी), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम ओंकार सिंह (14389015के अब जेसी-299244एक्स), 01 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम राम प्रीती यादवा (14407130पी अब जेसी-299245ए), 07 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम राधेश्याम यादव (14407947 एफ अब जेसी-299246एच), 18 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम आनंद प्रकाश (14394018एफ अब जेसी-299247एल), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम कुमार ई (14405369 वाई अब जेसी-299248 एन) 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम दिनेश सिंह (14390530एच अब जेसी-299249डब्ल्यू), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम बलविंदर सिंह (14387297पी अब जेसी-299250 एल), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम राजेश एम (14407102एच अब जेसी-299251एन), 06 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

आरएचएम गजेंद्र सिंह (14385098एच अब जेसी-299252डब्ल्यू), 09 मई 2005, \*27 अप्रैल 2005

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एम एन सिंह,  
अवर सचिव

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कौर)

सं० 450, दिनांक 26 अगस्त, 2005 — राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) रैंक में

1. एस के कौल (एम आर-03373-वाई) - 29-06-04 वेतन व पेंसन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक 01-05-04 से दी जाती है।

2. जे एस कुलकर्णी (एम आर-02673-एन) - 17-08-04 वेतन व पेंसन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-04 से दी जाती है।

3. जी एस मिश्रा (एम आर-02658-वाई) - 07-09-04 वेतन व पेंसन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-04 से दी जाती है।

4. जे जयाराम (एम आर-02669-एल) - 01-03-05

5. आर के गर्ग (एम आर -03268-एच) - 14-03-05 वेतन व पेंसन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-03-05 से दी जाती है।

ले० कर्नल से कर्नल के पद पर

एस एस मिश्रा (एम आर-4215-डब्ल्यू) - 05-02-2003 परन्तु वेतन व पेंसन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-1999 से दी जाती है।

मेजर के पद पर

(श्रीमती) नन्दिका सुहासिनी रेड्डी (एम एस-13638-एल) (एम आर-08103-एल) ए एम सी 27-07-2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18-09-2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रदद किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

मयंक अजय कक्कर (एम आर-07964-एक्स)(75822 वाई) ए एम सी-18-07-2004

शिव कुमार शर्मा,  
ब्रिगेडियर

उप डी जी ए एफ एम एस (पी)

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

संख्या 451, दिनांक 25 अगस्त, 2005 — राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

आई सी 45303 सुनील कुमार ए सी 9-11-04

आई सी 44000 बी एस राओ इन्जीनियर्स 14-6-04

आई सी 45192 संदीप सिंह लालजी इन्जीनियर्स 25-4-04

आई सी 45202 आर के पाठक आर्टी 25-4-04

आई सी-42645 आर के कुट्टी ए एस सी 15-12-04

एस एल-3159 जे एस जसवाल एस एल आर ओ 20-7-04

आई सी 42580 आर पी नायर ई एम ई 15-12-04

एस एल 3145 ओम प्रकाश एस एल 20-7-04

आई सी 42648 एस रौयसन इन्फैंट्री 15-12-04

आई सी 42368 वी एस नेगी इन्फैंट्री 15-12-04

आई सी 42522 एम के बासक सिग्नल्स 15-12-04

आई सी 42375 एस एस रलहन ए एस सी 15-12-04

आई सी 42569 भूपेन्द्र सिंह ए ओ सी 15-12-04

आई सी 42527 ए डब्ल्यू मूले ए एस सी 15-12-04

आई सी 42596 ए मोहित इन्फैंट्री 15-12-04

आई सी 42551 पी वी राजकर इन्फैंट्री 15-12-04

आई सी 42496 महेश पी देशपांडे आर्टी 15-12-04

एस एल 3309 राजिन्दर सिंह चीमा एस एल 20-7-04

आई सी 38994 मेजर डी बी यादव इन्फैंट्री 07-06-2000

आई सी 45118 सतिन्दर सिंह इन्जीनियर्स 10-11-03

आई सी 45065 रमन कपिला इन्फैंट्री 26-4-03

आई सी 41341 जी पी एस धीर आर्टी 18-6-03

आई सी 41345 के के पल्लीसरी इन्फैंट्री 18-6-03

अजय गोगयल,

उप निदेशक

एम एस-85

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 452, दिनांक 25 अगस्त, 2005—राष्ट्रपति आर०सी०एम०ए० कानपुर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को वर्तमान ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिनांक 01 जुलाई 2004 से

क्रम सं० नाम वर्तमान ग्रेड उच्च ग्रेड वेतमान

1. श्री ए० डी० खत्री, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, ₹ 16400-450-20000

2. श्री ए०सी० सिंह, वैज्ञानिक डी०, वैज्ञानिक ई, ₹ 14300-400-18300

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:

आई ए टी, पुणे के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड, दिनांक और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में

क्रम सं० नाम वर्तमान पदनाम पदोन्नत पदनाम दिनांक पदोन्नत पदनाम का वेतनमान

1. श्री ए० चन्द्रशेखरन वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' 05.07.2004 ₹ 14300-400-18300

2. डॉ० ए०जी० नवाले, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' 01.07.2004 -वही-

3. श्री मिस्राजी लाल, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' 01.07.2004 -वही-

4. श्री आर के काले, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' 01.07.2004 -वही-

एन एस टी एल, विशाखापटनम के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड, दिनांक और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में क्रम सं० नाम वर्तमान पदनाम पदोन्नत पदनाम दिनांक पदोन्नत पदनाम का वेतनमान

1. श्री एस० वीर भद्रैया वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक 'जी' 01 जुलाई 2005  
रु० 18400-500-22400
2. श्री पी० विवेकानन्द योगी वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक 'जी' 01 जुलाई 2005 -वही-
3. श्री ए० एस०एन० मूर्ति वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
4. श्री बीवीएसएस कृष्णकुमार वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
5. श्री एन०एस० नायडू वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
6. डा० के० त्रिनाथ वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
7. श्री के०पी० गांधी वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
8. श्री जी० सूर्यनारायणा वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
9. श्री पी० बालायोगी वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
10. श्री एम० मोहनकृष्णा वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
11. श्री पी०वी०एस० गणेश कुमार वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' 01 जुलाई 2005  
रु० 16400-450-20000
12. श्री बी भास्कर राव वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' 01 जुलाई 2005  
रु० 14300-400-18300
13. श्री जी० सत्यनारायण राव वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' 01 जुलाई 2005  
रु० 14300-400-18300
14. श्री सी०एच०वी०एस० श्रीनिवास वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' 01 जुलाई 2005  
रु० 14300-400-18300
15. श्री अब्रहम वर्गोस वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' 01 जुलाई 2005  
रु० 14300-400-18300
16. श्री सुकेन्दु शर्मा वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' 01 जुलाई 2005  
रु० 14300-400-18300
17. श्री जी० सुभाष बाबु वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' 01 जुलाई 2005  
रु० 12000-375-16500
18. श्री ए०के० अग्रवाल वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' 01 जुलाई 2005  
रु० 12000-375-16500
19. श्रीमती एन० उषा रानी वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' 06 जुलाई 2005  
रु० 12000-375-16500

20. श्री एम० श्रीनिवास राव वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' 01 जुलाई 2005  
रु० 12000-375-16500

21. श्री सी०एच० भुजङ्गराव वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' 01 जुलाई 2005  
रु० 12000-375-16500

इनगास, दिल्ली के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2005 से।

क्रम सं० नाम पदनाम पदोन्नति वेतनमान

1. डा० एस०एस० लहरी वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ'  
रु० 16400-450-20000
2. डा० सुभाष खुशु वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ'  
रु० 16400-450-20000
3. डा० तरुण सेखरी वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ'  
रु० 16400-450-20000
4. डा० असीम भटनागर वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई'  
रु० 14300-400-18300
5. डा० सुधीर चान्दना वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई'  
रु० 14300-400-18300
6. डा० पुष्पा मिश्रा वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' रु० 14300-400-18300
7. श्री डी०सी० तिवारी वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी'  
रु० 12000-375-16500
8. डा० राजेश अरोरा वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी'  
रु० 12000-375-16500

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:

आई टी आर, बालासोर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2005 पूर्वाह्न से

क्रम सं० नाम वर्तमान पदनाम पदोन्नत पदनाम पदोन्नत पदनाम का वेतनमान

1. श्री बी के पलटा सिंह वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ'  
रु० 16400-450-20000
2. श्री एत्यागराज वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-450-20000
3. श्री राकेश बरुआ वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई'  
रु० 14300-400-18300
4. श्री नीरज कुमार वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' 12000-375-16500
5. श्री रंजन कुमार डे वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-
6. श्री शिलादित्य भट्टाचार्य वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-
7. श्री अनुप कुमार साहु वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-
8. श्री वी वी सुबह्मण्यम वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-
9. श्री एस के साहनी वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-
10. श्री मृणाल गोस्वामी वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-
11. श्री बी पटनायक वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-

12. श्री मनीष कुमार श्रीवस्तव वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-  
 13. श्री नीलामथाब बिसवाल वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-  
 14. डा० अरुण कुमार रे वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-

आई आर डी ई, देहरादून के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2005 पूर्वाह्न से

क्रम सं० नाम वर्तमान पदनाम पदोन्नत पदनाम दिनांक पदोन्नत पदनाम का वेतनमान

1. डा० एस एस नेगी वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक 'जी' रु 18400-500-22400  
 2. श्री कुलदीप सिंह कोहली वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' रु 16400-450-20000  
 3. श्री पी० के० बंद्योपाध्याय वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' -वही-  
 4. श्री अमिताभ घोष वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' -वही-  
 5. श्री हरि भाऊ वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' -वही-  
 6. श्री सुभाष चन्द्र चावला वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' रु 14300-400-18300  
 7. श्री सोबरन सिंह वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' -वही-  
 8. श्री उपेन्द्र सिंह वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' -वही-  
 9. श्री राजीव मराठे वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' -वही-  
 10. श्रीमती नीता काण्ढपाल वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई' -वही-  
 11. श्री धर्मपाल सिंह वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' रु 12000-375-16500  
 12. श्री अब्बलसिंह राणा वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-  
 13. श्री मानवेंद्र सिंह वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-  
 14. श्री गौरव सिंह निम वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-  
 15. श्री ए के गुप्ता वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-

वी आर डी ई, अहमदनगर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से

क्रम सं० नाम वर्तमान पदनाम पदोन्नत पदनाम पदोन्नत पदनाम का वेतनमान

1. डा० सी० एल० धमेजानी वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक 'जी' रु 18400-500-22400  
 2. श्री एच० पी० कुलकर्णी वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' रु 16400-450-20000  
 3. श्री एस् वी० लोन्धे वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ' -वही-  
 4. श्री एम० एम० कुलकर्णी वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' रु 12000-375-16500  
 5. श्री एस् मुत्तुकृष्णन वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी' -वही-

आई आर डी ई, देहरादून के श्री ज० अ० कृष्णामूर्ति वैज्ञानिक 'जी' को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास

सेवा में उसी स्थापना में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु 22400-525-24500 पर

सेमीलाक, बैंगलोर के श्री बी०एस० वेदाप्रकाश, वैज्ञानिक 'एफ' को वैज्ञानिक 'जी' के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु 18400-500-22400 पर

डा० नरेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक 'जी' निदेशक आई०टी०एम, मसूरी को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु 22400-525-24500 पर।

जे० के० खडवाल,  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

// संख्या 453, दिनांक 25 अगस्त, 2005 — राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:—

भारतीय वायु सेना

वायु शाखा

उड़ान शाखा

एयर वॉयस मार्शल के मूल रैंक में:—

एस् मुकजी (12925) उपा० 03-03-05, 25-10-04 (नो से०)

एस् सी० मुकुल (12930) उपा० 25-10-04

पी० एस् भंगु (12932) उपा० 29-03-05, 01-11-04 (नो से०)

वी० आर० अयर (12939) उपा० 01-11-04

टी० एस् रंधवा (12947) उपा० 01-12-04

जी० एस् कोचर (13149) उपा० 01-01-05

प्रशासनिक शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में:—

पी० एन् सक्सेना (रिट) (12330) प्रशा० 01-04-04

वी० के० दयालु (13096) प्रशा० 05-04-04

उड़ान शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में:—

जे० सेबास्तियन (13385) उपा० 25-04-03, 07-01-03 (नो से०)

वी० बाबु (13386) उपा० 05-01-04, 07-01-03 (नो से०)

(इनका नाम एयर कॉमोडोर के पी देविया (12949) उपा० और के गोपाकुमार (13391) उपा० के बीच में आयेगा)

एस् पी० ओझा (13394) उपा० 25-04-03, 13-01-03 (नो से०)

के० के० विजय कुमार (13396) उपा० 25-04-03, 13-01-03 (नो से०)

(इनका नाम एयर कॉमोडोर के जे मैथ्यू (13393) उपा० और ए गोपीनाथ (13397) उपा० के बीच में आयेगा)

वी० एन्० कालिया (13568) ऊपा० 27-01-04, 13-01-03 (नो० से)  
(इसका नाम एयर कॉमोडोर एम्० बनर्जी (13400) ऊपा० के नीचे  
आयेगा।)

के० जी० बेवूर (13570) ऊपा० 19-06-03, 13-01-03 (नो० से)  
एन्० के० जैन (13576) ऊपा० 05-01-04, 13-01-03 (नो० से)  
(इनका नाम एयर कॉमोडोर वी एन कालिया (13568) ऊपा० और ए०  
सैक्या (13585) ऊपा० के बीच में आयेगा)

जी० सिंह (13588) ऊपा० 25-04-03, 15-02-03 (नो० से)  
(इनका नाम एयर कॉमोडोर ए० सैक्या (13585) ऊपा० और आर० मल्होत्रा  
(13590) ऊपा० के बीच में आयेगा)

एल० के० मल्होत्रा (13373) ऊपा० 01-08-03

शंकर मनी (13596) ऊपा० 01-08-03

एस्० पी० राजगुरू (13765) ऊपा० 02-12-03, 14-10-03 (नो० से)

एस्० पी० सिंह (13770) ऊपा० 14-10-03

जे० एस्० ढिल्लन (13764) ऊपा० 03-02-04, 16-10-03 (नो० से)

वी० के० बाली (13787) ऊपा० 16-10-03

आर एन मेरानी (13788) ऊपा० 01-03-04, 01-12-03 (नो० से)

बी० एस्० सुबलोक (13795) ऊपा० 30-12-04, 01-12-03 (नो० से)

आर० कृष्ण (13807) ऊपा० 03-02-04, 01-12-03

पी० आर० राव (13811) ऊपा० 01-04-04, 01-12-03 (नो० से)

ए० राहा (13910) ऊपा० 01-12-03

एस्० बोरदोलोई (13912) ऊपा० 01-01-04

एस्० एस्० के० टिल्लू (13919) ऊपा० 01-01-04

बी० सी० तालुकदार (13923) ऊपा० 12-01-04

एस्० एस्० ढांदा (13926) ऊपा० 12-01-04

पी० आर० शर्मा (13927) ऊपा० 12-01-04

डी० डी० मंडपे (13937) ऊपा० 01-03-04, 01-02-04 (नो० से)

एम्० सूद (13945) ऊपा० 03-02-04

(संतोष कुमार शुक्ला)

उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

सेना शाखा

सं० 454, दिनांक 26 अगस्त, 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों  
की दिनांक 27-08-2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा  
कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना आनुदेश  
74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान  
करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

सौरभ सी० वोबडे [एम एस 14349-एच, [एम आर-081107 के], ए  
एम सी 18-02-2002 [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25-01-2003  
में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी  
से हैं रद्द किया जाता है।]

अजय जोशी [एम एस 14243-डब्ल्यू][एम आर-08109पी] ए एम सी  
29-05-2001 [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12-10-2002 में  
प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से  
हैं रद्द किया जाता है।]

श्रीमती नन्दिका सुहासिनी रेड्डी [एम एस 13638-एल][एम आर-08103  
एल] [ए एम सी 27-07-1999 [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक  
23-09-2000 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक  
इस अधिकारी से हैं रद्द किया जाता है।]

शिव कुमार शर्मा

सेना शाखा

संख्या 455, दिनांक 23 अगस्त, 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी  
को सेवानिवृत्त होने और अपना रैंक बनाये रखने की अनुमति प्रदान  
करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

सेवा निवृत्ति

कर्नल अरुण भागरा टीए-41495 इंजीनियर्स 31 अक्टूबर, 2004

बी० के० मल्होत्रा,  
अवर सचिव

अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 456 दिनांक 22 अगस्त, 2005—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने  
अर्थात् 50 वर्ष के होने पर, अनु एवं वि संगठन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी  
श्री शंगारा राम, 30 जून, 2005 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।  
(और 01 जुलाई, 2005 से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिए गए हैं):—

संतोष दासगुप्ता,

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा०)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 457, दिनांक 25 अगस्त, 2005—सेवा निवृत्ति की आयु पर पहुंचने के  
परिणाम स्वरूप श्री एम सी गुप्ता टीओ 'सी' पी एण्ड सी, डीआरडीओ

मुख्यालय, नई दिल्ली से 31 जुलाई 2005 अपराह्न को सेवा निवृत्त हो गए तथा 01 अगस्त 2005 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किए गए ।

सेवा निवृत्ति की आयु पर पहुंचने के परिणामस्वरूप श्री वी वी ऋषि टी ओ 'बी' डी आई सी, डीआरडीओ मुख्यालय, नई दिल्ली से 31 जुलाई

2005 अपराह्न को सेवा निवृत्त हो गए तथा 01 अगस्त, 2005 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किए गए ।

बी० बी० शर्मा,

उप-निदेशक (कार्मिक-1)  
कृते रक्षा अनुसंधान निदेशालय

## ARMY BRANCH

## ARMED FORCES FILM AND PHOTO DIVISION

No. 444, dated 22 August 2005—The President is pleased to appoint Shri P.S. Hooda, Deputy Director as Director, AFFPD with effect from 27th July 2005.

2. The recommendations of the DPC would be subject to outcome of the O.A. No. 892/2005 — Shri T.L. Verma Vs UOI and others or any other Court case pending in the matter.

## DIRECTORATE GENERAL OF DEFENCE ESTATES

The President is pleased to appoint Shri Shatrughan Tiwari, Senior Translator of AFHQ Official Language Services as Assistant Director (OL) (Group 'B' Gazetted) with effect from 01st July 2005 (A/N).

SANTOSH DASGUPTA  
Deputy Chief Administrative Officer (A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 445 Dated 25 August, 2005—The President is pleased to make the following appointment:—

Dr. N. Gopalan to be temporary Scientist 'D', on probation for one year is DRDE, Gwalior with effect from 20.05.2004 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

Shri M Surya Prakasa Raju to be temporary Scientist 'D', on probation for one year in NSTL, Visakhapatnam with effect from 31.05.2004 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

Shri A.V. Joshi to be temporary Scientist 'E' on probation for one year in CEMILAC, Bangalore with effect from 01 Sep 2004 (F/N) in the pay scale of Rs 14300-400-18300.

J K KHADWAL,  
Joint Director (Pers)

## FINANCE DIVISION

No. 446 dated 22 August, 2005—The President is pleased to continue the appointment of the following Grade 'C' Stenographers borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretaries on ad-hoc basis in this Division for a further period mentioned against their name or until further orders whichever is earlier.

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	From	To
1.	Rajbir Singh	01.07.2005	30.09.2005
2.	SP Kapoor	01.07.2005	30.09.2005
3.	Smt Sukhpal Walia	01.07.2005	30.09.2005

MC LUTHER  
Deputy Financial Adviser(E)

## AIR HEADQUARTERS

No. 447, dated 22 August 2005—The President is pleased to extend the appointment of the following Officers of AFHQ Civil Services under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 as Deputy Directors (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 with effect from 09 Feb 2005 to 08 Aug 2005:—

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt)
(a)	Abhinavjeet Ojha
(b)	Devendra Kumar
(c)	Pragya Shantanu
(d)	Anupam Mishra
(e)	Shweta Ashok
(f)	SK Shukla
(g)	Amar Nath Sinha
(h)	BC Das
(j)	HP Malik
(k)	GD Gupta
(l)	AN Shukla
(m)	PK Garg
(n)	DK Chaturvedi

2. The appointment of the above mentioned officers to the grade of Deputy Director under rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 is subject to the following conditions:—

(a) These appointments are made purely as stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

(b) The service rendered by the officers in the grade of Dy Dir under rule 7(8) will neither be taken into account for seniority of the officers in this grade nor will it reckon for appointment of the officers as Deputy Director on regular basis.

(c) These appointments are subject to the outcome of various court cases, pending before the Hon'ble CAT/ Hon'ble High Court, Delhi, which may affect the seniority position in the feeder grades.

The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistants of AFHQ Stenographer Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) on temporary basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10000 w.e.f. 01 Jan 2005 to 30 Jun 2005 or till persons from Select List become available or till the individual retires, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt)
(a)	LN Gupta
(b)	Smt Geetha Jayakumar
(c)	Smt Cynthia Kapoor

## S.No. Name (S/Shri/Smt)

- (d) TC Arora  
 (e) Km Radha Rajan  
 (f) VK Sarpal  
 (g) Bal Krishan  
 (h) Smt Santosh Dewan  
 (j) Ramesh Aswani  
 (k) SK Sachdeva  
 (l) AK Chhibar  
 (m) DL Bhatia  
 (n) AK Sharma  
 (o) Ravinder Kumar

2. The promotion shall be subjected to the following conditions:—

(a) Their appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to this effect.

(b) The officers shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of this promotion granted now nor will their period of such appointment count towards seniority in the grade of PS.

SANTOSH DASGUPTA  
 Dy Chief Administrative Officer

## AIR BRANCH

AERONAUTICAL ENGINEERING  
(MECHANICAL & ELECTRICAL) BRANCH

No. 448 dated 26 August 05.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers, who were granted Short Service Commission (on probation) w.e.f. the date as stated against their names:—

Fg Offr Jaffer Ali Anwar Ali (27417) AE(L) Lalitha KC (27171) AE(L) Sandeep Kumar Sheoran (27426) AE(L) Yogita Chavhan (27177) AE(L) Prathaban Subburaj (27421) AE(L) Dinesh V Nair (27422) AE(L) Ramana Sundaram R (27433) AE(L) Prashant Adhikary (27420) AE(L) Kunal Singal (27418) AE(L) Subhash K (27423) AE(L) R Subathra (27176) AE(L) Gurpreet Singh (27427) AE(L) Andrews J Arul (27161) AE(M) w.e.f. 05 Jan 04.

Fg Offr Pallavi Pandey (27623) AE(M) Poonam (27626) AE(L) Alka Pandey (27628) AE(L) Tejaswini G (27624) AE(M) Seema Bittu (27627) AE(L) Mabel Benedict Castelino (27625) AE(L). w.e.f. 05 Jul 04.

S. SRIVASTAV  
 Wg Cdr JDPO-3(D)

## ARMY BRANCH

No 449, dated 23 August, 2005.—The President is pleased to make the following promotion from Lieutenant to Captain w.e.f. the date as shown against the offr under the provisions of addendum No 4 of 2/S/66 giving him ante-date seniority of 12 months being Post Graduate degree holder in Veterinary Science before commissioning in the Army:—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

## Lieutenant to be Captain

Ser No	No Rank & Name	Corps	Date of Com-mission	Date of ante-date seniority	Date of promotion as Capt
(a)	VS-1003A Lt SS Bhardwaj	RVC	02.09.96	02.09.95	02.09.97

2. Name of Lt SS Bhardwaj published in the Gazette of India dated 17 Apr 99 for promotion to the rank of Capt is hereby deleted.

## REGULAR ARMY

## REGIMENT OF ARTILLERY

## To be substantive Subedar Major (AIG)

Sub Joseph AT (JC-215685L) 20 Apr 2004, \*01 Apr 2004

The President is pleased to make the following promotion:—

Sub Sube Singh (JC-226971M) 01 May 2004

Sub Shambhu Dayal Yadav (JC-255559F) 09 Aug 2004, \*01 Jul 2004

Sub Ladu Singh Sekhawat (JC-255273M) 01 Aug 2004

Sub Satpal Singh (JC-225274P) 02 Feb 2005, \*01 Feb 2005

Sub Lekh Ram (JC-225374L) 06 Apr 2005, \*01 Mar 2005

Sub Jagdev Singh Yadav (JC-225410L) 04 Apr 2005, \*01 Mar 2005

Sub Kailash Nath Yadav (JC-214927W) 01 May 2005

Sub Abtar Singh Chauhan (JC-214907H) 02 May 2005, \*01 May 2005

Sub Niranjana Lal (JC-225682L) 01 May 2005

## To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Patil Dhondiram Shankar (JC-260535F) 09 Aug 2003, \*01 Aug 2003

Nb Sub Ramesh Singh (JC-214905X) 05 Feb 2004, \*01 Feb 2004

Nb Sub S Pirama Nayagam (JC-261247F) 08 Apr 2004, \*01 Mar 2004

Nb Sub Shardul Singh (JC-261249M) 01 Apr 2004

Nb Sub Bishan Dass (JC-261244N) 01 Apr 2004

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-261246Y) 08 Apr 2004, \*01 Apr 2004



Nb Sub Satya Deo Singh Yadav (JC-261440H) 15 May 2004,  
\*01 May 2004

Nb Sub Balram Singh (JC-261256H) 01 Jun 2004

Nb Sub Shesh Ram Yadav (JC-261829F) 01 Aug 2004

Nb Sub Baldev Singh (JC-261455W) 01 Aug 2004

Nb Sub Ram Chandran P (JC-261834M) 01 Sep 2004

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-261459M) 01 Sep 2004

Nb Sub P Deva Sagayam (JC-261831Y) 18 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-261832Y) 01 Oct 2004

Nb Sub Omkar Nath Singh (JC-261835P) 05 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

Nb Sub Masal Ananda Annu (JC-261836X) 1 Oct 2004, \*01  
Oct 2004

Nb Sub Ratti Ram (JC-261838H) 01 Oct 2004

Nb Sub Om Prakash Singh (JC-261841H) 01 Oct 2004

Nb Sub Satbir Singh (JC-261839L) 09 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

Nb Sub Deep Narain Roy (JC-261840A) 07 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

Nb Sub Baljit Singh Chouhan (JC-261842L) 11 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

Nb Sub Mahinder Singh Guleria (JC-261950P) 04 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

Nb Sub Manjit Singh (JC-261949A) 05 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

Nb Sub Raghuveer Singh Jodha (JC-261951X) 07 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

Nb Sub Anil Kumar (JC-261953H) 04 Oct 2004, \*01 Oct 2004

Nb Sub Ved Singh (JC-262135N) 09 Oct 2004, \*01 Oct 2004

To be Nb Sub

BHM Ram Khelawan Sahu (14478142N Now JC-267446L)  
01 Oct 2004, \*01 Feb 2004

Hav Jagpal Singh (14487818M Now JC-267447N)  
02 Nov 2004, \*01 Apr 2004

Hav Gaura Kisore Singha (14357661N Now JC-267448W)  
10 Sep 2004, \*29 Apr 2004

Hav Jagir Singh (14478528N Now JC-267449Y) 01 Oct 2004,  
\*01 Feb 2004

RHM Sanjoy Dey (14488172Y Now JC-267450N)  
02 Nov 2004, \*14 May 2004

RHM Suresh Kumar (14375032Y Now JC-267451W)  
27 Aug 2004, \*01 Jul 2004

Hav Parshotam Singh (14361291W Now JC-267452Y)  
19 Oct 2004, \*04 Jul 2004

Hav Susheel Kumar Singh (14479989K Now JC-267453F)  
01 Nov 2004, \*01 Jul 2004

BHM Madho Ram (14463087L Now JC-267454K)  
15 Sep 2004, \*28 Jul 2004

RHM Ram Prasad (14461713L Now JC-267455M)  
14 Aug 2004, \*01 Aug 2004

RHM Prem Chand (14484249Y Now JC-267456P) 22 Oct  
2004, \*31 Aug 2004

Hav Gurdal Singh (14398140 Now JC-267457X)  
25 Oct 2004, \*01 Sep 2004

Hav Jora Ram (14470203L Now JC-267458A) 28 Oct 2004,  
\*01 Sep 2004

Hav Prakash Bhuimbar (14474754N Now JC-267459H)  
20 Oct 2004, \*01 Oct 2004

Hav Rajendra Prasad Nautiyal (14349703A Now  
JC-267460X) 01 Nov 2004

Hav Wagh Sanjay Kumar Gangadhar (14397632F Now  
JC-267461A) 01 Nov 2004

Hav Akhileswar Singh (14379068P Now JC-267462H)  
25 Nov 2004, \*06 Mar 2004

RHM Kashmir Lal (14469900Y Now JC-267463L)  
14 Aug 2004, \*29 Jun 2004

Hav Degaia Vijaya Kumar (14378664P Now JC-267464N)  
25 Nov 2004, \*30 Jun 2004

Hav Raghubir Singh (14498092P Now JC-267465W)  
20 Oct 2004, \*01 Jul 2004

BHM Bahadur Singh (14348926L Now JC-267466Y)  
01 Nov 2004, \*01 Aug 2004

BHM Thennarasu V (14360808K Now JC-267467F)  
03 Dec 2004, \*27 Aug 2004

Hav Satnam Singh (14354153M Now JC-267468K)  
08 Oct 2004, \*01 Sep 2004

Hav Sree Kumar P (14378518P Now JC-267469F)  
30 Sep 2004, \*01 Sep 2004

Hav Ram Chand (14497129Y Now JC-267470F) 15 Oct 2004,  
\*01 Sep 2004

BHM Bute Vijay Kumar Waman Rao (14482506M Now  
JC-267471K) 16 Oct 2004, \*01 Oct 2004

Hav Uma Shanker Prasad (14349261M Now JC-267472M)  
29 Nov 2004, \*01 Oct 2004

Hav Udaya Pratap Singh Gautam (14366553L Now  
JC-267473P) 26 Oct 2004, \*01 Oct 2004

Hav Gharge Suryaji Anand Rao (14475882X Now  
JC-267474X) 16 Oct 2004, \*01 Oct 2004

Hav Munshi Lal (14473794H Now JC-267475A) 26 Oct 2004,  
\*01 Oct 2004

BHM Kishori Lal (14461506Y Now JC-267476H)  
12 Nov 2004, \*01 Nov 2004

Hav Kolase Gundi Ram Laxman (14373759L Now  
JC-267477L) 29 Nov 2004, \*01 Nov 2004

Hav Bodh Raj (14362799M Now JC-267515W) 25 Nov 2004,  
\*01 May 2004

Hav Dilbag Singh (14381222F Now JC-267516Y)  
24 Nov 2004, \*08 Jun 2004

Hav Raghuvir Singh (14487398X Now JC-267517F)  
25 Oct 2004, \*30 Jun 2004

Hav Harvir Singh (14372655X Now JC-267518K)  
24 Nov 2004, \*30 Jun 2004

BHM Munna Lal (14461035W Now JC-267519M)  
05 Nov 2004, \*01 Aug 2004

Hav Raj Kumar Singh (14363494X Now JC-267520F)  
13 Nov 2004, \*01 Aug 2004

Hav Inderjit Singh (15109783M Now JC-267521K)  
05 Nov 2004, \*16 Aug 2004

Hav Shiv Raj Singh (14345863H Now JC-267522M)  
16 Nov 2004, \*30 Aug 2004

Hav Dayanandan P (14489340Y Now JC-267523P)  
11 Nov 2004, \*31 Aug 2004

Hav Yogendra Singh (14372268H Now JC-267524X)  
09 Nov 2004, \*01 Sep 2004

Hav Paramjit Singh (14370395Y Now JC-267525A)  
24 Nov 2004, \*01 Sep 2004

BHM Vijay Pal Singh (14474570P Now JC-267526H)  
16 Oct 2004, \*03 Sep 2004

Hav Vijay Narayan Ram (14355380Y Now JC-267527L)  
01 Dec 2004, \*01 Oct 2004

RHM Harchand Singh (14345664P Now JC-2675228N)  
27 Nov 2004, \*01 Oct 2004

BHM Karnail Singh (14490026X Now JC-267529W)  
25 Nov 2004, \*01 Oct 2004

Hav Surendar Prasad (14469438L Now JC-267530L)  
08 Nov 2004, \*07 Oct 2004

RHM Asokan Nair K (14352452M Now JC-267531N)  
23 Nov 2004, \*01 Aug 2004

BHM Sobran Singh (14470279L Now JC-267532W)  
03 Dec 2004, \*01 Aug 2004

Hav Jaswant Singh (14469526F Now JC-267533Y)  
07 Dec 2004, \*01 Aug 2004

Hav Krishan Kumar (14367487A Now JC-267534F)  
06 Nov 2004, \*01 Sep 2004

Hav Nagarajan B (14485164P Now JC-267535K) 23 Nov  
2004, \*01 Sep 2004

Hav Ram Mehar (14481601M Now JC-267536M) 26 Oct  
2004, \*01 Sep 2004

Hav Balwant Singh (14469975W Now JC-267537P)  
01 Oct 2004

BHM Mallikarjunaiah R (14393809M Now JC-267538X)  
30 Dec 2004, \*01 Oct 2004

Hav Hari Giri (14401308K Now JC-267539A) 31 Dec 2004,  
\*01 Oct 2004

BHM Resham Singh (14475613L Now JC-267540P)  
06 Dec 2004, \*01 Nov 2004

RHM Kasina Boyyina Chalamaiiah (14358681N Now  
JC-267541X) 07 Dec 2004, \*01 Nov 2004

Hav Kamlesh Chander (143367435K Now JC-267542A)  
10 Dec 2004, \*01 Nov 2004

Hav Krishan Chand (14477470P Now JC-267543H)  
16 Dec 2004, \*23 Nov 2004

Hav Ram Prakash (14367279L Now JC-267544L) 29 Nov  
2004, \*25 Nov 2004

BHM Madan Lal (14350008X Now JC-267545N) 15 Dec  
2004, \*08 Dec 2004

Hav Raghubar Dayal (14464965H Now JC-267546W)  
06 Jan 2005, \*01 Jan 2005

Hav Surender Prasad (14477501K Now JC-267379L)  
12 Aug 2004, \*01 Apr 2004

Hav Daljit Singh (14381198W Now JC-267380A) 06 Sep  
2004, \*01 Jun 2004

Hav Chandrapal Singh (14498719F Now JC-267381H)  
22 Oct 2004, \*01 Jul 2004

Hav Deo Kumar Singh (14473256P Now JC-267382L)  
20 Oct 2004, \*01 Aug 2004

BQMH Baswaraj (14378049X Now JC-267383N) 30 Oct 2004,  
\*01 Aug 2004

Hav Prem Singh Rana (14465085Y Now JC-267384W)  
16 Aug 2004, \*01 Aug 2004

Hav Tara Chand (14375800P Now JC-267385Y) 20 Sep 2004,  
\*01 Aug 2004

Hav Ramesh Kumar (14359847W Now JC-267386F)  
10 Nov 2004, \*01 Aug 2004

Hav Nestar Kindo (14366462F Now JC-267387K) 2 Aug  
2004

Hav Manoj Kumar (14385841M Now JC-267388M)  
20 Oct 2004, \*12 Aug 2004

BHM Bobde Sanjay Amrutrao (14368439M Now  
JC-267389P) 01 Nov 2004, \*19 Aug 2004

Hav Mankar Wasudeo Ramji (14479356W Now JC-267390K)  
01 Nov 2004, \*19 Aug 2004

BQMH Krishan Kumar Sharma (14347123M Now JC-267391M) 1 Sep 2004

RHM Dharam Singh (14366377Y Now JC-267392P) 13 Nov 2004, \*16 Oct 2004

Hav Jai Prakash Chaube (14474996W Now JC-267393X) 20 Oct 2004, \*10 Oct 2004

Hav Jagan Ram (14336496A Now JC-267398W) 08 Nov 2004, \*06 Nov 2003

RHM Kate Yeshwant Pandurang (14494855H Now JC-267399Y) 17 Sep 2004, \*30 Nov 2003

Hav Selvaraj R (14494803M Now JC-267400H) 1 Nov 2004, \*14 Feb 2004

Hav Dhurve Bajirao Vithoba (14361144N Now JC-267401L) 30 Oct 2004, \*24 Jul 2004

BHM Ram Chand (14906114N Now JC-267402N) 11 Oct 2004, \*06 Aug. 2004

Hav Dharam Vir (14472634W Now JC-267403W) 28 Oct 2004, \*08 Aug. 2004

Hav Mahabir Singh (14472325N Now JC-267404Y) 06 Sep 2004, \*01 Sep 2004

Hav Ramvriksha Prasad (14495391H Now JC-267405F) 29 Oct 2004, \*01 Sep 2004

Hav Shambhu Nath Thakur (14471100Y Now JC-267406K) 11 Oct 2004, \*01 Oct 2004

BHM Madan Lal (14473335K Now JC-267407M) 24 Oct 2004, \*01 Oct 2004

Hav Satya Nath Bhumi (14468196F Now JC-267408P) 28 Oct 2004, \*01 Oct 2004

Hav Biran Singh Chandawat (14470112F Now JC-267409X) 24 Oct 2004, \*01 Oct 2004

Hav Lakhwinder Singh (14362916M Now JC-267410M) 06 Nov 2004, \*01 Oct 2004

Hav Vijay Singh (14343837H Now JC-267411P) 01 Oct 2004

Hav Ramesh Kumar (14361279P Now JC-267412X) 17 Nov 2004, \*01 Oct 2004

RHM Davekar Bhausaheb Ram Chandra (14360127F Now JC-267413A) 14 Nov 2004, \*01 Nov 2004

(\*Gtd. Seniority wef)

#### CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Subedar Major (Y of S)

Sub Mani C (JC-223404Y) 6th Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj. w.e.f. 1st Feb, 2005 without effect on pay and allowances)

Sub K.C. Mishra (JC-223405F) 1st Mar 2005

Sub Prem Kumar Singh (JC-223407M) 1st Apr 2005

To be substantive Subedar Major (F of S)

Sub Sree Kumaran Kakkonikkara (JC-215160F) 27th Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Balvir Singh (JC-214031P) 1st Mar 2005

Sub Baij Nath (JC-215167L) 8th May 2005

(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Narayan Satapathy (JC-215172W) 1st Apr 2005

Sub Bhanwar Singh Rathore (JC-215176M) 1st May 2005

To be Substantive Subedar Major (O.P. Ciph)

Sub K.B. Bhojan (JC-367997L) 1st Mar 2005

Sub Ajit Kumar Ghosh (JC-368121Y) 1st Mar 2005

Sub Gurdial Singh (JC-368124M) 1st Mar 2005

Sub Ruplal Thakur (JC-368126X) 1st Apr 2005

Sub Arabinda Bera (JC-368128H) 1st May 2005

To be Substantive Subedar Major (O.P. Spec)

Sub V.S.S. Yadav (JC-367372W) 2nd Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Jan. 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Shish Ram (JC-367730W) 1st Apr 2005

Sub Ramesh Chand Rana (JC-367738H) 1st May 2005

Sub Mangi Lal Meena (JC-367352H) 1st May 2005

To be Substantive Subedar Major (CLK GD)

Sub Biswanath Pramanik (JC-368204K) 1st Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Jan. 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Shambhu Nath Chaubey (JC-368461F) 1st Mar 2005

Sub Chander Bhan (JC-368462K) 2nd Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Apr 2005 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Devender Pal Singh (JC-369933Y) 17th Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Surender Singh Dalal (JC-369940P) 16th Mar 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Kripal Singh (JC-370073H) 21st Mar 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Shashi Kant Singh (JC-370128F) 12th Mar 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Pooran Chandra (JC-370143W) 6th Mar 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Mallaraju K.R. (JC-370145F) 10th Mar 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Binod Kumar Singh (JC-370148P) 15th Mar 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Satender Singh Bist (JC-370149X) 1st Apr 2005

Sub Bhim Rao Mahadeo Kathane (JC-370150M) 1st Apr 2005

Sub Nanak Chand Verma (JC-370320L) 6th Apr 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Avtar Singh (JC-370323Y) 1st Apr 2005

Sub Tarsem Singh (JC-370325K) 4th Apr 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub. Maj. w.e.f. 1st Apr 2005 without effect on pay and allowances)

#### ARMY SERVICE CORPS

##### (SUPPLY)

To Be Naib Subedar : Clerk (GD)

Hav Girish Chandra Tripathy 6385961A Now JC-663136W 11 Mar 05\*

\*Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 05 without effect on pay & allowances.

Hav Satpal Sharma 6386090X Now JC-663137Y 01 Apr 05

Hav Dinesh Kumar Kashyap 6386169A Now JC-663138F 01 Apr 05

Hav Kailash Chandra Khatei 6386170P Now JC-663139K 01 Apr 05

Hav Radhey Shyam 6386175N Now JC-663140Y 01 Apr 05

Hav Sathyan CS 6386489P Now JC-663141F 01 Apr 05

Hav Madan Mohan Kholia 6386505F Now JC-663142K 01 Apr 05

Hav James Joseph 6378564Y Now JC-663215L 07 Apr 05\*

\*Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 05 without effect on pay & allowances.

Hav Brahmanand Sharma 6386251P Now JC-663216N 08 Apr 05\*

\*Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 05 without effect on pay & allowances.

Hav Arvind Nath Tiwari 6386323N Now JC-663217W 01 Apr 05

Hav Rakesh Kumar Bakshi 6386518Y Now JC-663218Y 02 May 05\*

\*Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 05 without effect on pay & allowances.

Hav Unnikrishanan Nair B 6386515L Now JC-663219F 02 May 05\*

\*Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 05 without effect on pay & allowances.

Hav Vijaya Kumar V 6386537K Now JC-663220W 01 May 05

Hav Dilip Kumar Biswal 6386172A Now JC-663273P 01 Apr 05

Hav Ashok Kumar 6386510M Now JC-663274X 01 May 05

Hav Gedela Venkata Mahendra Raju 6386570F Now JC-663275A 02 May 05\*

\*Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 05 without effect on pay & allowances.

Hav Sukhwinder Singh Kaknia 6386741H Now JC-663276H 01 May 05

Hav Manpal Singh 6378157W Now JC-663277L 01 May 05

Hav Shinde Anila Kumar 6378672H Now JC-663316Y 01 Jun 05\*

\*Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Mar 05 without effect on pay & allowances.

Hav Mam Chand 6376922A Now JC-663317F 01 Jun 05

Hav Rambir 6377164A Now JC-663318K 01 Jun 05

Hav Jagdish Chander 6377383F Now JC-663319M 01 Jun 05

Hav Dalip Singh 6377557W Now JC-663320F 01 Jun 05

Hav Sarata Chandra Panda 6377685N Now JC-663321K 01 Jun 05

Hav Roop Lal 6377953M Now JC-663322M 01 Jun 05

## CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Sivan Kutty N. (JC-256148P) 01 Apr 2005

Subedar Munde Sheshrao Sadashiv (JC-296596K)  
03 Jun 2005, \*01 Jun 2005

Subedar S. Raj (JC-296518M) 01 Jul 2005

To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Subedar Shimbhu Singh (JC-205841W) 03 May 2005,  
\*01 May 2005

Subedar S. Pethu (JC-225395F) 01 Jun 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Devendra Kumar (JC-298276N) 08 Jan 2005,  
\*01 Dec 2004Nb Sub Panduru Kondala Rao (JC-298157X) 27 Jan 2005,  
\*03 Jan 2005Nb Sub Ram Kumar (JC-298399A) 18 Feb 2005,  
\*01 Feb 2005Nb Sub Ashok Kumar Roy (JC-298668F) 27 Apr 2005,  
\*20 Feb 2005Nb Sub Rattan Lal (JC-298042K) 07 Mar 2005,  
\*01 Mar 2005Nb Sub Ashok Kumar Nain (JC-298028X) 18 May 2005,  
\*06 Mar 2005

Nb Sub Ram Avtar (JC-297914P) 13 Jun. 2005, \*01 Apr 2005

Nb Sub Dalveer Singh (JC-297957K) 01 Apr 2005

Nb Sub Narayan Datt (JC-298548H) 19 Apr 2005,  
\*01 Apr 2005Nb Sub Shaik Dastagiri Saheb (JC-298439W) 26 Apr 2005,  
\*01 Apr 2005Nb Sub Sukumaran TP (JC-298554W) 26 Apr 2005,  
\*01 Apr 2005Nb Sub K. Mahendran (JC-298642M) 21 May 2005,  
\*01 Apr 2005

Nb Sub Dharamvir (JC-297676N) 01 June 2005

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Maniraj Prasad Dwivedi (JC-297808W) 01 Apr 2005

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Ram Karan (JC-298535L) 01 Mar 2005

Nb Sub Sube Singh (JC-298533A) 10 Mar 2005,  
\*01 Mar 2005

Nb Sub Rajender Singh (JC-298536N) 01 June 2005

Nb Sub Amarjit Singh (JC-298574K) 01 June 2005

To be Substantive Subedar (CLK)

Nb Sub Ajaya Kumar CP (JC-297527A) 22 May 2005,  
\*01 Apr 2005Nb Sub Deva Ram Lakhara (JC-297528H) 04 Jul 2005,  
\*01 Jul 2005

Nb Sub Inder Sain (JC-297529L) 01 Jul 2005

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Rajesh Kumar Pandey (JC-256691N) 04 Dec 2004,  
\*01 Dec 2004

Nb Sub Sudhir Kumar Mishra (JC-296438P) 01 Dec 2004

Nb Sub Dinesh Kumar Tiwari (JC-623072N) 01 Dec 2004

Nb Sub Dhanesh Prasad Mishra (JC-256695K) 09 Dec 2004,  
\*01 Dec 2004

\*(Gtd. ante date Saniority wef.)

To be Nb Sub

BHM Chandra Sekharan Nair TP (14377437H Now  
JC-299221W) 12 Apr 2005, \*01 Apr 2005BHM Goberdhan Prasad Shukla (14367556L Now  
JC-299222Y) 23 Apr 2005, \*01 Apr 2005RHM Sahi Ram (14356598X Now JC-299223F) 27 Apr 2005,  
\*05 Apr 2005BHM Yeruva Rama Subba Reddy (14358706P Now  
JC-299224K) 27 Apr 2005, \*16 Apr 2005BHM Ram Kishore (14363038N Now JC-299225M)  
01 May 2005BHM Sukhdev Singh (3381281A Now JC-299226P)  
03 May 2005, \*01 May 2005BHM Ram Pramod Singh (14369078L Now JC-299227X)  
01 June 2005, \*01 May 2005BHM Pramod Kumar Pandey (14347305A Now JC-299228A)  
24 May 2005, \*08 May 2005RHM Mari Chamy K. (14376782K Now JC-299229H)  
28 May 2005, \*20 May 2005BHM Brijesh Kumar (14366301Y Now JC-299230X)  
01 June 2005BHM Rajdev Singh (14368193Y Now JC-299231A)  
01 June 2005

BHM Subhash (14359479M Now JC-299232H) 01 June 2005

HAV Anil Kumar (14388909N Now JC-299233L) 01 June  
2005RHM Jatinder Singh (14378849W Now JC-299234N) 06 May  
2005, \*27 Apr 2005RHM Girbar Singh (15101846P Now JC-299235W) 09 May  
2005, \*27 Apr 2005RHM Manohar Singh (14370643K Now JC-299236Y)  
10 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Binod Singh Rathaur (14387728W Now JC-299237F)  
05 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Shankar Lal (14385192M Now JC-299238K)  
06 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Prem Singh (14392931W Now JC-299239M)  
06 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Bishan Chand (14367838K Now JC-299240F)  
16 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Sambhu Pada Barman (14393937K Now JC-299241K)  
06 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Murali Mohan SP (14408232X Now JC-299242M)  
06 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Anjan Kumar Roy (14404805X Now JC-299243P)  
06 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Onkar Singh (14389015K Now JC-299244X)  
01 May, 2005, \*27 Apr 2005

RHM Ram Priti Yadawa (14407130P Now JC-299245A)  
07 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Radhe Shyam Yadav (14407947F Now JC-299246H)  
18 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Anand Prakash (14394018F Now JC-299247L)  
06 May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Kumar E (14405369Y Now JC-299248N) 06 May 2005,  
\*27 Apr 2005

RHM Dinesh Singh (14390530H Now JC-299249W) 06 May  
2005, \*27 Apr 2005

RHM Balwinder Singh (14387297P Now JC-299250L) 06  
May 2005, \*27 Apr 2005

RHM Rajesh M. (14407102H Now JC-299251N) 06 May  
2005, \*27 Apr 2005

RHM Gajendra Singh (14385098H Now JC-299252W)  
09 May 2005, \*27 Apr 2005

\*(Gtd. ante date seniority wef.)

M M SINGH  
Under Secretary

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj. Gen. (& equivalent)

No. 450, dated 26 August, 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

S.K. Kaul (MR-03373-Y), 29-06-04 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-05-04

J.S. Kulkarni (MR-02673-N), 17-08-04 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-07-04

G.S. Misra (MR-02658-Y), 07-09-04 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-09-04

J. Jayaram (MR-02669-L), 01-03-05

R.K. Garg (MR-03268-H), 14-03-05 with notional seniority without effect on pay & pension from 02-03-05

#### PERMANENT COMMISSION

Lt. Col. To Be Col

S.S. Mitra (MR-4215-W), 01-02-2003 with notional seniority without effect on Pay and pension from 01-05-99

To Be Major

(Mrs) Nandika Suhasini Reddy (MS-13638-L) (MR-08103-N)  
AMC - 27-07-2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18-09-2004, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To Be Surg. Lt.

(a) Surg. Lt. Mayank Ajay Kacker (MR-07964-X) (75822 Y),  
AMC — 18 Jul 2004

SHIV KUMAR SHARMA  
Brig Dy DGAFMS (P)

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Majors To Be Substantive Lt.col. (Time Scale)

No. 451, dated 25 August, 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

1. IC-45303 Sunil Kumar, AC 9-11-04

1. IC-44000 BS Rao Engrs. 14-6-04

2. IC-45192 Sundeep Singh Lalji, Engrs. 25-4-04

3. IC-45202 R.K. Pathak Arty 25-4-04

1. IC-44430 Sunil Yadav Engrs. 20-12-04

2. SL-3159 J.S. Jaswal SL (RO) 20-7-04

3. IC-42645 R.K. Kutty, ASC 15-12-04

1. IC-42580 R.P. Nair, EME 15-12-04

2. SC-3145 Om Prakash, SL 20-7-04

3. IC-42525 R. Thapar, Inf. 20-12-04

4. IC-42648 S. Royson, Inf. 15-12-04

5. IC-42368 V.S. Negi, Inf. 15-12-04

6. IC-42522 M.K. Basak, Sigs 15-12-04

7. IC-42375 S.S. Ralhan, ASC 15-12-04

8. IC-42569 Bhupender Singh, AOC 15-12-04

9. IC-42527 A.W. Muley, ASC 15-12-04
10. IC-42596 A. Mohite, Inf. 15-12-04
11. IC-42551, P.V. Rajkar, Inf. 15-12-04
1. IC-42496 Mahesh P. Deshpande, Arty 15-12-04
2. SL-3309 Rajinder Singh Cheema, SL 20-7-04
1. IC-38994 Maj. D.B. Yadav, Inf. 07 Jun. 2000
1. IC-45118 Satinder Singh, Engrs. 10-11-03
2. IC-45065 Raman Kapila, Inf. 26-4-03
3. IC-41341 G.P.S. Dhir, Arty. 18-6-03
4. IC-41345 K.K. Pallisery, Inf. 18-6-03

AJAIGOEL  
Dty. Dir. DAMS-8A

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 452, dated 25 August, 2005.—The President is pleased to promote the following ZScientists of RCMA Kanpur from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2004 (F/N) in the same Establishment as mentioned against each:—

Ser.No. Name Existing Grade Grade to which promoted Pay Scale of promoted grade

1. Shri S.D. Khattri Sc 'E' Sc 'F' Rs. 16,400-450-20,000
2. Shri A.C. Singh Sc 'D' Sc 'E' Rs. 14,300-400-18,300

The President is pleased to promote the following Scientists of I.A.T, Pune from their existing grade to the next higher grade with effect from the date as mentioned against each:—

Srl.No. Name Existing Grade Grade to which promoted Date Pay Scale of promoted Grade

1. Shri N. Chandrasekaran Sc 'D' Sc 'E' 05-07-2004 Rs. 14300-400-18300
2. Dr. N. G. Navale Sc 'D' Sc 'E' 01-07-2004 -do-
3. Shri Mizaji Lal Sc 'D' Sc 'E' 01-07-2004 -do-
4. Shri R.K. Kale Sc 'C' Sc 'D' 01-07-2004 Rs. 12000-375-16500

The President is pleased to promote the following Scientists of NSTL, Visakhapatnam from their existing grade to the next higher grade with effect from the date as mentioned against each:—

Srl. No. Name Existing Grade Grade to which Promoted Date Pay Scale of Promoted Grade

1. Shri S. Veerabhadraiah Sc 'F' Sc 'G' 01.07.2005 Rs. 18400-500-22400

2. Shri P. Vivekananda Yogi Sc 'F' Sc 'G' 01.07.2005 -do-
3. Shri ASN Murthy Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 Rs. 16400-450-20000
4. Shri BVSS Krishna Kumar Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 -do-
5. Shri NS Naidu Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 -do-
6. Dr. K. Trinath Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 -do-
7. Shri K.P. Gandhi Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 -do-
8. Shri G. Suryanarayana Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 -do-
9. Shri P. Bala Yogi Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 -do-
10. Shri M.Mohanakrishna Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 -do-
11. Shri PVS Ganesh Kumar Sc 'E' Sc 'F' 01.07.2005 -do-
12. Shri V. Bhaskara Rao Sc 'D' Sc 'E' 01.07.2005 Rs/ 14300-400-18300
13. Shri G. Satyanarayana Rao Sc 'D' Sc 'E' 01.07.2005 -do-
14. Shri Ch. VS Srinivas Sc 'D' Sc 'E' 01.07.2005 -do-
15. Shri Abraham Varughese Sc 'D' Sc 'E' 01.07.2005 -do-
16. Shri Sukendu Sharma Sc 'D' Sc 'E' 01.07.2005 -do-
17. Shri G. Subhash Babu Sc 'C' Sc 'D' 01.07.2005 Rs. 12000-375-16500
18. Shri A. K. Agarwal Sc 'C' Sc 'D' 01.07.2005 -do-
19. Smt. N. Usha Rani Sc 'C' Sc 'D' 06.07.2005 -do-
20. Shri M. Srinivasa Rao Sc 'C' Sc 'D' 01.07.2005 -do-
21. Shri Ch. Bhujanga Rao Sc 'C' Sc 'D' 01.07.2005 -do-

The President is pleased to promote the following Scientists of INMAS from their existing grade to the next higher grade w.e.f. 01-07-2005 as mentioned against each:—

S.No. Name Existing Grade Grade to which Promoted Pay Scale Promoted Grade

1. Dr. S.S. Lahiri Sc 'E' Sc 'F' Rs. 16400-450-20000
2. Dr. Subhash Khushu Sc 'E' Sc 'F' -do-
3. Dr. Tarun Sekhri Sc 'E' Sc 'F' -do-
4. Dr. Aseem Bhatnagar Sc 'D' Sc 'E' Rs. 14300-400-18300
5. Dr. Sudhir Chandna Sc 'D' Sc 'E' -do-
6. Dr. Pushpa Mishra Sc 'D' Sc 'E' -do-
7. Shri DC Tiwari Sc 'C' Sc 'D' Rs. 12000-375-16500
8. Dr. Rajesh Arora Sc 'C' Sc 'D' -do-

The President is pleased to promote the following Scientists of ITR, Balasore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01-07-2005 (F/N) as mentioned against each:—

Srl. No. Name Existing Grade Grade to which Promoted Pay Scale Promoted Grade

1. Shri BK Palta Singh Sc 'E' Sc 'F' Rs. 16400-450-20000

2. Shri A Thyagaraj Sc 'E' Sc 'F' -do-
3. Shri Rakesh Barua Sc 'D' Sc 'E' Rs. 14300-400-18300
4. Shri Niraj Kumar Sc 'C' Sc 'D' Rs. 12000-375-16500
5. Shri Ranjan Kumar Dey Sc 'C' Sc 'D' -do-
6. Shri Shiladitya Bhattacharya Sc 'C' Sc 'D' -do-
7. Shri Anup Kumar Sahu Sc 'C' Sc 'D' -do-
8. Shri. V. V. Subrahmanyam Sc 'C' Sc 'D' -do-
9. Shri S.K. Sahani Sc 'C' Sc 'D' -do-
10. Shri Mrinal Goswami Sc 'C' Sc 'D' -do-
11. Shri B. Patnaik Sc 'C' Sc 'D' -do-
12. Shri Manish Kumar Shrivastava Sc 'C' Sc 'D' -do-
13. Shri Neelamadhab Biswal Sc 'C' Sc 'D' -do-
14. Dr. Arun Kumar Ray Sc 'C' Sc 'D' -do-

The President is pleased to promote the following Scientists of IRDE, Dehradun from their existing grade to the next higher grade with effect from 01-07-2005 (F/N) as mentioned against each:—

Srl. No. Name Existing Grade Grade to which Promoted Pay Scale of Promoted Grade

1. Dr. SS Negi Sc 'F' Sc 'G' Rs. 18400-500-22400
2. Shri Kuldip Singh Kohli Sc 'E' Sc 'F' Rs. 16400-450-20000
3. Shri PK Bandyopadhyay Sc 'E' Sc 'F' -do-
4. Shri Amitabh Ghosh Sc 'E' Sc 'F' -do-
5. Shri Hari Bhau Sc 'E' Sc 'F' -do-
6. Shri Subhash Chandra Chawla Sc 'D' Sc 'E' Rs. 14300-400-18300
7. Shri Sobran Singh Sc 'D' Sc 'E' -do-
8. Shri Upendra Singh Sc 'D' Sc 'E' -do-
9. Shri Rajeev Marathe Sc 'D' Sc 'E' -do-
10. Smt. Neeta Kandpal Sc 'D' Sc 'E' -do-
11. Shri Dharampal Singh Sc 'C' Sc 'D' Rs. 12000-375-16500
12. Shri Abbal Singh Rana Sc 'C' Sc 'D' -do-
13. Shri Manvendra Singh Sc 'C' Sc 'D' -do-
14. Shri Gaurav Singh Nim Sc 'C' Sc 'D' -do-
15. Shri AK Gupta Sc 'C' Sc 'D' -do-

The President is pleased to promote the following Scientists of VRDE, Ahmednagar from their existing grade to the next higher grade with effect from 01-07-2005 (F/N) as mentioned against each:—

Srl. No. Name Existing Grade Grade to which Promoted Pay Scale of Promoted Grade

1. Dr. C.L. Dhamejani Sc 'F' Sc 'G' Rs. 18400-500-22400

2. Shri H.P. Kulkarni Sc 'E' Sc 'F' Rs. 16400-450-20000
3. Shri S.V. Londhe Sc 'E' Sc 'F' -do-
4. Shri M.M. Kulkarni Sc 'C' Sc 'D' Rs. 12000-375-16500
5. Shri S. Muthukrishnan Sc 'C' Sc 'D' -do-

Shri J.A.R. Krishnamoorthy, SC 'G' of IRDE, Dehradun to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in the same Estt with effect from 01 Jul 2005 in the pay scale of Rs. 22400-525-24500.

Shri BS Vedaprakash, Scientist 'F' of CEMILAC, Bangalore, to be Scientist 'G' in DRDS in the same Lab with effect from 01 July 2004 (F/N) in the pay scale of Rs. 18400-500-22400.

Dr. Narender Singh, Scientist 'G', Director, ITM, Mussoorie to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in the Defence Research & Development Service with effect from 01 Jul 2005 in the Pay Scale of Rs. 22400-525-24500 in the same appointment.

J K KHADWAL  
Joint Director (Pers)

#### AIR BRANCH

#### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING BRANCH

To be Substantive Air Vice Mshl

No.453, dated 25 August 2005.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion:—

Name	Number	Br	Date
S Mukerji	12925	F(p)	03-03-05, 25-10-04 (Ns)
SC Mukul	12930	F(p)	25-10-04
PS Bhangu	12932	F(p)	29-03-05, 01-11-04 (Ns)
VR Iyer	12939	F(p)	01-11-04
TS Randhawa	12947	F(p)	01-12-04
Nak Browne	13129	F(p)	01-12-04
M John	13131	F(p)	27-12-04
KK Nohwar	13132	F (P)	27-12-04
GS Kochar	13149	F(p)	01-01-05

Not Vetted

#### ADM BRANCH

To be Substantive Air Cmde

PN Saxena (Retd.) (12330) Adm 01-04-04  
VK Dayalu (13096) Adm 05-04-04

#### FLYING BRANCH

#### TO BE SUBSTANTIVE AIR CMDE

1. J Sebastian (13385) F(P) 25.04.03/07.01.03(NS)



## 2. V Babu (13386) F(P) 05.01.04/07.01.03(NS)

(Their names will appear between Air Cmdes KP Devia (12949) F(P) and K Gopakumar (13391) F(P) in the combined gradation list)

## 3. SP Ojha (13394) F(P) 25.04.03/13.01.03(NS)

## 4. KK Vijay Kumar (13396) F(P) 25.04.03/13.01.03(NS)

(Their names will appear between Air Cmdes KJ Mathews (13393) F(P) and a Gopinath (13397) F(P) in the combined gradation list)

## 5. VN Kalia (13568) F(P) 27.01.04 13.01.03(NS)

(His name will appear below air Cmde M Banerjee (13400) F(P))

## 6. KG Bewoor (13570) F(P) 19.06.03/13.01.03(NS)

## 7. NK Jain (13576) F(P) 05.01.04/13.01.03(NS)

(Their names will appear between Air Cmde VN Kalia (13568) F(P) and Air Cmde A Saikia (13585) F(P) in the combined gradation list).

## 8. G Singh (13588) F(P) 25.04.03/15.02.03(NS)

(His name will appear between Air Cmde A Saikia (13585) F(P) and AIR CMDE R Malhotra (13590) F(P) in the combined gradation list)

## 9. LK Malhotra (13373) F(P) 01.08.03

## 10. Shankar Mani (13596) F(P) 01.08.03

## 11. SP Rajguru (13765) F(P) 02.12.03/14.10.03(NS)

## 12. SP Singh (13770) F(P) 14.10.03

## 13. JS Dhillon (13764) F(P) 03.02.04/16.10.03(NS)

## 14. VK Bali (13787) F(P) 16.10.03

## 15. RN Merani (13788) F(P) 01.03.04/01.12.03(NS)

## 16. BS Subhlok (13795) F(P) 30.12.04/01.12.03(NS)

## 17. R Krishan (13807) F(P) 03.02.04/01.12.03(NS)

## 18. PR Rao (13811) F(P) 01.04.04/01.12.03(NS)

## 19. A Raha (13910) F(P) 01.12.03

## 20. S Bordoloi (13912) F(P) 01.01.04

## 21. SSK Tiloo (13919) F(P) 01.01.04

## 22. BC Talukdar (13923) F(P) 12.01.04

## 23. SS Dhanda (13926) F(P) 12.01.04

## 24. PR Sharma (13927) F(P) 12.01.04

## 25. DD Mandpe (13937) F(P) 01.03.04/01.02.04(NS)

## 26. M Sud (13945) F(P) 03.02.04

SK SHUKLA

Dy Director of Personnel (Officers) PO-2(B)

## ARMY BRANCH

No. 454, dated 26 August, 2005.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 27.08.2004 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

## REGULAR ARMY

## (PERMANENT COMMISSION)

## To Be Capt (On Prob)

Saurabh C Bobdey (MS-14349-H) (MR-08110-K), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 18.02.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 25.01.2003 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

AJAY JOSHI (MS-14243-W) (MR-08109-P), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 29.05.2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12-10-2002 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

(Mrs) Nandika Suhasini Reddy (MS-13638-L) (MR-08103-N) AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 27-07-1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 23-09-2000 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

SHIV KUMAR SHARMA

Brig Dy DGAF MS(P)

## ARMY BRANCH

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

No. 455, dated 23 August, 2005.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire with permission to retain his rank:—

Col Arun Bhagra TA-41495 Engrs 31 Oct 2004

B K MALHOTRA

Under Secretary

## RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 456, dated 22 August, 2005.—On attaining the age of superannuation viz 60 years, Shri Shangara Ram, Section Officer, R&D Organisation retired from service w.e.f. 30 Jun 2005 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 1 Jul 2005)

SANTOSH DAS GUPTA

Dy. Chief Administrative Officer (A)

MINISTRY OF DEFENCE  
DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 457, Dated 25 August, 2005.—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri MC Gupta, TO 'C', Dte of P&C, DRDO HQ retired from service with effect from 31 Jul 2005 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01 Aug 2005 (FN).

Consequent upon attaining the age of superannuation Shri VV Rishi, TO 'B', DIC, DRDO HQ retired from service with effect from 31 Jul 2005 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01 Aug 2005 (FN).

B B SHARMA  
Deputy Director (Pers-1)